

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 30, 1968/माघ 10, 1889

No. 32] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 30, 1968/MAGHA 10, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January 1968

S.O. 468.—In pursuance of the provisions of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected in the constituency referred to therein is published for general information:—

DECLARATION

Bye-Election to the House of the People 13-Mandya Parliamentary Constituency.

"In pursuance of section 66 of the Representation of the People Act, 1951, I declare that Shri S. M. Krishna, B.A., B.L., M.C.L., (Texas) Somanahalli, Maddur Taluk, Mandya District, has been duly elected by the Mandya Parliamentary Constituency to fill the vacancy in the House of the People caused by the death of Shri M. K. Shivnanajappa.

PLACE: Mandya

DATED: 24th January, 1968.

Sd./- S. NANJUNDIAH,
Returning Officer."

[No. F. 5(35)/67-Elec.]

V. N. BHATIA, Secy.

(71)

